

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 07.02.2021\***

**\*थाना बण्डा पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध की कार्यवाही,  
अवैध शराब का निष्कर्षण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,  
40 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा  
भट्टी सहित करीब 2000 लीटर लहन नष्ट किया।\***

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण व कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व में थाना बण्डा पुलिस को मिली कामयाबी।

दिनांक 06.02.21 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का निष्कर्षण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिलन्दापुर के जंगल से 02 अभियुक्तों 1-रंजीत पुत्र हरसिंह नि0 ग्राम भोजपुर थाना गोपालपुर जिला भरतपुर राजस्थान वर्तमान निवासी ग्राम पुलहोती थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर 2-रामकुमार पुत्र बिहारी नि0 ग्राम मोहनपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को 40 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण, भट्टी तथा करीब 2000 लीटर लहन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 55/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा पुलिस से बचने हेतु जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा करके शराब का निष्कर्षण किया जा रहा था तथा उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी आदि से ढक देते थे ताकि किसी को पता ना लगे।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-\***

- 1-रंजीत पुत्र हरसिंह नि0 ग्राम भोजपुर थाना गोपालपुर जिला भरतपुर राजस्थान वर्तमान निवासी ग्राम पुलहोती थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 2- रामकुमार पुत्र बिहारी नि0 ग्राम मोहनपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1-02 प्लास्टिक पिपियाओ में करीब 40 लीटर शराब खाम
- 2-शराब बनाने के उपकरण व भट्टी
- 3-करीब 2000 लीटर लहन

**\*पुलिस टीम का विवरण-\***

- 1-उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 2-हे0का0 69 अरविन्द कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 3-का0 1871 कपिल गोस्वामी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर